

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

# दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-31082023-248446  
SG-DL-E-31082023-248446असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 270]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 31, 2023/भाद्र 9, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 208
No. 270]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 31, 2023/BHADRA 9, 1945	[N. C. T. D. No. 208

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

श्रम विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 30 अगस्त, 2023

क्रमांक CIS/Exemption(CIS-01)/Lab/2023/3984-3997.—दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 (1954 का दिल्ली अधिनियम 7) की धारा 4 के परन्तुक के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उक्त अधिनियम के संलग्न अनुसूची में निम्नलिखित परिवर्द्धन करता है।

उक्त अनुसूची में प्रतिष्ठान, इत्यादि शीर्षक में वर्तमान प्रविष्टि क्रम संख्या 282 के बाद निम्नलिखित प्रविष्टि को जोड़ा जायेगा, नाम से :-

283.

क्र.सं.	संस्थान का नाम	पता
01	द न्यू शॉप	4/52 ग्राउंड फ्लोर पुराना राजेंद्र नगर नई दिल्ली दिल्ली 110060
02	सरदारजी चिकन कॉर्नर	दुकान नंबर WZ-153B, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर, उत्तम नगर, नई दिल्ली- 110059
03	सरदारजी चिकन कॉर्नर	दुकान नंबर 13, ब्लॉक ए, डीडीए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, पश्चिम बिहार, नई दिल्ली
04	आरिगा स्ट्रेटजी कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड	प्लॉट नंबर 13, बी ब्लॉक, पॉकेट 3 सेक्टर 17, द्वारका, नई दिल्ली- 110075
05	पी वाई डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	अपर ग्राउंड फ्लोर, प्लॉट नंबर 1, ब्लॉक ई, प्रशांत बिहार, दिल्ली- 110085
06	fn न्यू शॉप	जी 2 वर्धमान जी डी प्लाजा प्लॉट नंबर 10 सेक्टर 12 द्वारका नई दिल्ली दिल्ली 110078
07	fn न्यू शॉप	वा 118, मेन मंदर डेयरी रोड, शकरपुर, दिल्ली- 110092
08	रोज रिटेलस प्राइवेट लिमिटेड	खसरा नंबर 47, लाल डोरा आबादी गांव, बुढेला, विकासपुरी, नई दिल्ली- 110018
09	मोविन एक्सप्रेस प्राइवेट लिमिटेड	यूनिट नंबर 11, 12, पहली मंजिल, बेयरहाउस ब्लॉक 1 एसी 1 सीआईआई, आईजीआई एयरपोर्ट, नई दिल्ली- 110037
10	fn न्यू शॉप	Wz 3426 ग्राउंड फ्लोर शकूरपुर रानी बाग नई दिल्ली दिल्ली 110034
11	रोज रिटेलस प्राइवेट लिमिटेड	बेसमेंट फ्लोर, ए, पंजाबी बाग वेस्ट, एवेन्यू रोड, नई दिल्ली- 110026
12	मैक्स रीच स्टोर्स प्राइवेट लिमिटेड	प्रथम तल, प्लॉट नंबर 141, खसरा नंबर 15, अर्जुन नगर, कोटला मुबारकपुर, नई दिल्ली- 110003 पर स्थित है
13	पी वाई डी रिटेल प्राइवेट लिमिटेड	संपत्ति संख्या 06, खसरा संख्या 185/150, ग्राम गढ़ी झरिया मारिया संत नगर की आबादी, नई दिल्ली- 110065
14	रोज रिटेलस प्राइवेट लिमिटेड	बेसमेंट प्लॉट नंबर 17525, खसरा नंबर 76, यूसुफ सराय, हौजखास, दक्षिणी दिल्ली- 110016 पर स्थित है

अधिनियम की धारा- 15, 16 से निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

1. किसी कर्मचारी को एक दिन में 9 घंटे (खाना व आराम के साथ) या एक सप्ताह में 48 घंटे से अधिक काम करने के लिये न रखा जायेगा और न अनुमति दी जायेगी। इसके अलावा कोई कर्मचारी एक बार में 5 घंटे से अधिक काम पर नहीं लगाया जायेगा। दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 की धारा 8 के अंतर्गत समयोपरि मजदूरी का भुगतान कर्मचारियों को सामान्य दर से दूगने दर पर किया जायेगा। नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि बायोमेट्रिक मशीन के रिकार्ड्स दिल्ली दुकान एवं संस्थापन अधिनियम 1954 और दिल्ली दुकान एवं संस्थापन नियम 1954 के अंतर्गत इस तरह के रजिस्टर और रिकार्ड के संरक्षण के लिये कथित समय तक संरक्षित रहे।
2. यदि पारी में कार्य चलता हो, तो इस प्रकार से होगा कि किसी भी कर्मचारी को केवल रात्रि पारी में कार्य करने के लिए बाध्य नहीं किया जायेगा।
3. नियोक्ता उन सभी कर्मचारियों की सुरक्षा और यातायात का उचित प्रबंध करेगा जिन्हें समयोपरि या दिल्ली दुकान एवं संस्थापन, 1954 के अंतर्गत विहित सामान्य कार्यावधि के बाहर पारी में काम करने को कहा गया है तथा नियोक्ता दुकान/संस्थान में वीडियोग्राफी के लिए सी.सी.टी.वी. स्थापित करेगा तथा उसे कम से कम 6 महीने के लिए संरक्षित रखेगा व मांगे जाने पर प्रमुख दुकान निरीक्षक के समक्ष पेश करेगा।
4. यदि किसी कर्मचारी से राष्ट्रीय अवकाश पर काम करवाया जाता है तो उसके लिए कर्मचारी को मुआवजा अवकाश व समयोपरि दोगुना वेतन का भुगतान किया जायेगा।
5. कर्मचारियों को साप्ताहिक अवकाश बारी बारी से दिया जायेगा।
6. नियोक्ता यह सुनिश्चित करेगा कि श्रमिकों को विभिन्न श्रम कानूनों के तहत सभी कानूनी लाभ जैसे पी.एफ., ई.एस.आई., बोनस व छुट्टी प्रदान की जायेगी।
7. कर्मचारियों को वेतन की अदायगी बैंक या ई.सी.एस. के द्वारा की जायेगी।
8. इस छूट का किसी अन्य प्राधिकरण/ विभाग/सरकारी एजेंसियों जिसमें पुलिस भी शामिल है द्वारा जारी किसी अधिसूचना/आदेश/सलाह/परिपत्र पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
9. इस अधिसूचना की प्रतिलिपि प्रतिष्ठान के कर्मचारी प्रवेश द्वार पर प्रमुखता से प्रदर्शित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के  
उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर  
एस. सी. यादव, अतिरिक्त सचिव (श्रम)

**LABOUR DEPARTMENT****NOTIFICATION**

Delhi, the 30th August, 2023

**No. CIS/Exemption(CIS-01)/Lab/2023/3984-3997.**—In exercise of powers conferred by the proviso to Section 4 of the Delhi Shops and Establishments Act, 1954 (Delhi Act 7 of 1954), the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following addition in the Schedule-1, appended to the said Act.

In the said Schedule under “Establishment etc.” after the existing entry at serial no. 282 the following entry shall be added, namely:-

**283.**

Sl. No.	Name of Establishment	Address of Establishment	
01	The New Shop	4/52 Ground Floor Old Rajender Nagar New Delhi Delhi 110060	<p>From Section 15, 16 of the Act, subject to the following conditions:-</p> <p>(i) No employee shall be employed or allowed to work for more than nine hours (including that of meal and rest) on any day and for not more than forty Eight hours a week. Further, no employee shall be allowed to work for more than five hours at a stretch. Overtime wages shall be paid to eligible employees at double the normal rate as provided under section 8 of the Delhi Shops and Establishment Act, 1954. The employer shall ensure that the records of the Biometric machine if maintained shall be preserved for the duration mentioned for the similar register/record, in Delhi Shops and Establishment Act, 1954 and Rules made there under.</p> <p>(ii) Shift working, if any, shall be in such a way that no employee is forced to work in night shift only.</p> <p>(iii) Employer shall make suitable arrangement regarding safety, security and transportation of all the employees, who have been asked to work overtime or in the shift beyond the normal working hours as prescribed in the Delhi Shops and Establishments Act, 1954. Further the employer shall install Closed Circuit Television (CCTV) for videography of the establishment and preserve the same for not less than a period of six months and submit the same on demand from the Chief Inspector of Shops.</p> <p>(iv) Employees working on national holidays shall be given compensatory leave in lieu thereof, and double rate of wages as overtime.</p> <p>(v) Weekly off day will be allowed to employees in rotation.</p> <p>(vi) The employer shall ensure that the workers are provided all the legal benefits under various labour laws like Minimum Wages, Provident Fund (PF), Employees' State Insurance (ESI), Bonus, Leave facility and the same be put on website of the shop/ establishment.</p> <p>(vii) Payment of wages of employees shall be made by cheque/Electronic Clearing Service (ECS).</p> <p>(viii) This grant of exemption shall have no overriding effect on any notification/order/advisory/circular/ issued by any other Authority/</p>
02	SARDARJI CHICKEN CORNER	Shop No. WZ-153B, Ground Floor And First Floor, Uttam Nagar, New Delhi-110059	
03	SARDAR JI CHICKEN CORNER	Shop No. 13, Block A, DDA Shopping Complex, PaschimVihar, New Delhi	
04	Aariga Strategy Consultant Pvt Ltd	Plot No. 13, B Block, Pocket 3 Sector 17, Dwarka, New Delhi-110075	
05	P Y D Retail Private Limited	Upper Ground Floor, Plot No. 1, Block E, Prashant Vihar, Delhi- 110085	
06	The New Shop	G2 Vardhman Gee Dee Plaza Plot No 10 Sec 12 Dwarka New Delhi Delhi 110078	
07	The New Shop	Wa 118, Main Mother Dairy Road, Shakarpur, Delhi- 110092	
08	Roj Retails Private Limited	Khasra No. 47, Lal Dora Abadi Village, Budhela, Vikaspuri, New Delhi-110018	
09	MOVIN EXPRESS PRIVATE LIMITED	Unit No. 11, 12, 1st Floor, Warehouse Block 1 Ac1ciii, IGI Airport, New Delhi-110037	
10	The New Shop	Wz 3426 Ground Floor Shakarpur Rani Bagh New Delhi Delhi 110034	
11	Roj Retails Private Limited	Basement Floor, A, Punjabi Bagh West, Avenue Road, New Delhi- 110026	
12	Max Reach Stores Private Limited	First Floor, Plot No. 141, Bearing Khasra No. 15, situated at Arjun Nagar, Kotla Mubarakpur, New Delhi- 110003.	
13	P Y D Retail Private	Property No. 06, Khasra	

	Limited	No. 185/150, Abadi of village Garhi Jharia Maria Sant Nagar, New Delhi-110065.	<p>Department/Government Agencies</p> <p>Including Police.</p> <p>(ix) A copy of this notification shall be prominently displayed at the employee's entrance/exit of the establishment.</p>
14	Roj Retails Private Limited	Basement plot no 17525, Khasra No. 76, situated at Yusuf Sarai, Hauz Khas, South Delhi- 110016	

By Order and in the Name of  
 Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi  
 S.C. YADAV, Addl. Secy. (Labour)